

घरेलू संवृद्धिदर मज़बूत बनी रहेगी

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जति पटेल के अनुसार, घरेलू संवृद्धिदर अच्छे मानसून के कारण उचित रूप से मज़बूत बनी रहेगी जो कि इस महीने की शुरुआत में हुई मौद्रिक समितिकी बैठक की रिपोर्ट में अब तक सामान्य मानी जा रही थी। यह कृषिक्षेत्र के लिये एक शुभ संकेत है।

प्रमुख बिंदु

- रज़िर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार, वनरिमाण क्षेत्र मज़बूत रहा है और वगित कुछ महीनों में सेवाओं की गतिविधियों के कई उच्च आवृत्ति संकेतक तेज़ी से बढ़े हैं।
- बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद के कारण भारत के निर्यात में कमी आने से घरेलू निवेश और संवृद्धि की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।
- 1 अगस्त को हुई बैठक में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धिदर को 7.4% के अपने पूर्वानुमान पर बरकरार रखा और 2019-20 की पहली त्रिमाही के लिये 7.5% की दर का अनुमान लगाया।
- ध्यातव्य है कि गृह करिया भत्ते के प्रभाव को छोड़कर, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ने जून माह में लगातार तीसरे महीने में बढ़त हासिल की।
- खरीफ फसलों के लिये किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बदलाव से मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव में अनिश्चिता देखी गई। इन पर पड़ने वाले प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर आने वाले कुछ महीनों में देखने की संभावना व्यक्त की गई है।
- 1 अगस्त को आरबीआई ने बेंचमार्क रेपो दर में 25 आधार अंकों (BPS) की बढ़ोतरी की थी, जहाँ मौद्रिक समिति के छह में से पाँच सदस्यों ने वृद्धि के लिये मतदान किया था।

अन्य जोखिम

- रज़िर्व बैंक द्वारा किये गए परिवार संबंधी मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (IES) के पछिले तीन दौरों में 3 महीने और 12 महीने आगे की मुद्रास्फीति की प्रत्याशा में क्रमशः 110 बीपीएस और 150 बीपीएस के वृद्धि की उम्मीद है।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि मई और जून माह के लिये मासिक हेडलाइन मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा अनुमानित मुद्रास्फीति की अपेक्षा कम हो गई।